

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1980/श्रावण 11, 1902

No. 366] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1980/SRAVANA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संचालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1980

क्रा. आ. 607.—समिलनाडु राज्य सरकार ने पुडुक्कोट्टाई में 14-5-75 को एक नया पैलेस अर्जित किया था जिसे विलयित राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1949 के पैरा 13 के प्रयोजन के लिए पुडुक्कोट्टाई के भूतपूर्व शासक के शासकीय निवास के रूप में घोषित किया गया था और पुडुक्कोट्टाई के भूतपूर्व शासक ने तिरुचिरापल्ली स्थित पुडुक्कोट्टाई पैलेस को उक्त पैरा के प्रयोजन के लिए अपने शासकीय निवास के रूप में घोषित करने के लिए अनुरोध किया था ;

और उक्त शासक तिरुचिरापल्ली स्थित उक्त पुडुक्कोट्टाई पैलेस को पूर्वोक्त रूप से घोषित किए जाने का हकदार है ;

अतः, केंद्रीय सरकार, विलयित राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1949 के जिस रूप में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबन्धों द्वारा उसकी व्यावृत्ति की गई है पैरा 13 के मद (4) के, और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अनुसरण में, तिरुचिरापल्ली स्थित उक्त पुडुक्कोट्टाई पैलेस को तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पुडुक्कोट्टाई स्थित नए पैलेस के अर्जन की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए उक्त शासक का शासकीय निवास घोषित करती है।

[सं. 3605/फा. सं. 317/13/78-डब्ल्यू टी]
डी. एन. पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st August, 1980

S.O. 607(E).—Whereas the Government of Tamil Nadu acquired on 14-5-75 the New Palace at Pudukkottai which was declared as official residence of the ex-ruler of Pudukkottai for the purpose of paragraph 13 of the Merged States (Taxation Concessions) Order, 1949 and the ex-ruler of Pudukkottai made a request to the Central Government for declaring Pudukkottai Palace at Tiruchirapalli as his official residence for the purposes of the said paragraph.

And whereas the said ruler is entitled to have the said Pudukkottai Palace at Tiruchirapalli declared as aforesaid ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of item (iv) of paragraph 13 of the Merged States (Taxation Concessions) order, 1949, as saved by the provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby declares the said Pudukkottai Palace at Tiruchirapalli from the date of acquisition of New Palace at Pudukkottai by the Government of Tamil Nadu the official residence of the said Ruler for all purposes.

[No. 3605 (F. No. 317/13/78-WT)]
D. N. PANDE, Addl. Secy.